



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVT. OF INDIA)

मुख्यालय/HEAD OFFICE

भविष्य निधि भवन

BHAVISHYA NIDHI BHAWAN

14, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

14-BHIKAJI CAMA PLACE, NEW DELHI-110066

संख्या : एच आर डी/4(1)2011/misc./circular

दिनांक: 19.05.2011

सेवा में,

सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त  
सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त  
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (स्थानीय प्रशासन)

19 MAY 2011

विषय: Observance of Anti- Terrorism Day.

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषय पर Govt. of India, Ministry of Labour and Employment के कार्यालय ज्ञापन/पत्र संख्या No.Z-20015/01/11-Admn-II दिनांक 11.05.2011 की एक प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

2. इस संदर्भ में अनुपालन रिपोर्ट मुख्यालय को भेजे।

भवदीय

(जे. सी. तुकराल)

(जे. सी. तुकराल)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त - II

प्रतिलिपि:

1. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निजी सचिव
2. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी / सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निजी सचिव
3. निदेशक, नाटरस
4. मुख्य सतर्कता अधिकारी / सभी उप निदेशक, सतर्कता
5. मुख्य अभियंता के निजी सचिव
6. प्रभारी अधिकारी, सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान
7. सभी आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी
8. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्रशासन), मुख्यालय
9. मुख्यालय के सभी अधिकारी / सभी निजी सचिव / सभी अनुभाग अधिकारी
10. महासचिव, ई.पी.एफ. आफिसर्स एसोसिएशन, गुवाहाटी
11. महासचिव, ऑल इंडिया ई.पी.एफ. स्टाफ फेडरेशन, चंडीगढ़
12. महासचिव, ऑल इंडिया ई.पी.एफ. एस सी/एस टी फेडरेशन, नई दिल्ली
13.  डॉ. भ. नि. आ. (एन. डी. सी.) वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. गार्ड फाईल

(जे. सी. तुकराल)

(जे. सी. तुकराल)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त - II

Please take action for 20/5/11

Z-20015/01/11-Admn-II  
Government of India  
Ministry of Labour and Employment

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,  
New Delhi, dated 11.05.2011

**NOTE**

**Subject-** Observance of Anti-Terrorism Day.

The undersigned is directed to refer to enclosed copy of letter No. 19/11/2011-Public dated 29<sup>th</sup> April, 2011 from Ministry of Home Affairs on the above mentioned subject and to say that the appropriate programme including the pledge taking ceremony is to be organised to observe the Anti-Terrorism Day in befitting manner. The objective behind observance of this day is to wean away the youth from terrorism and the cult of violence by highlighting the sufferings of Common people and showing how it is prejudicial to national interest.

2. This year 21<sup>st</sup> May falls on Saturday, a close holiday for Central Government offices. To avoid inconvenience to the employees who have to travel long, distance from suburbs/ cities to come to office on Saturday, it has been decided that **'pledge taking ceremony'** in the offices of the Central government may be held on Friday, the 20<sup>th</sup> May, 2011. However, if 21<sup>st</sup> May, 2011 is not a closed holiday for the State/UT Governments, the pledge taking ceremony may be held on 21<sup>st</sup> May, 2011. It is mentioned in the letter that the ceremony may preferably be held in the forenoon.

3. An important feature of observance of the Day is "pledge-taking" ceremony. A copy of the "pledge" (both in hindi and English) is enclosed.

(A.K.Thakur)

Under Secretary to Govt. of India

Copy to-

- i. DGE&T, S.S.Bhawan, Rafi Marg New Delhi.
- ii. Chief labour Commissioner, S.S.Bhawan, Rafi Marg New Delhi.
- iii. DG, FASLI, N.S. Manikakar Marg, Sion, Mumbai-400022
- iv. DGLW, Jaisalmer House, New Delhi.
- iv. DG, ESIC, 14, Panchdeep Bhawan, C.I.G. Road, New Delhi
- ✓ v. CPFC, Bhikaji Cama Place, New Delhi.
- vi. Director, VVGNI, Sector 24, NOIDA, Gautam Budh Nager, U.P.
- vi. Admn III/ISHI/ISH-II/ESA/SSI/SSII. All the Administrative sections in Ministry of Labour and Employment, with the request to inform their attached attached/ subordinate offices concerned with them.,

We may circulate to all concerned.  
and see compliance report.

*(Signature)*  
19/5

19/5/11  
जे. सी. ठुकराल  
संघीय शक्ति भवन आयुक्त-1



**MOST IMMEDIATE**

1  
9

No. 19/11/2011-Public  
Government of India/Bharat Sarkar  
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

North Block, New Delhi,  
Dated the April 28, 2011.

29 APR 2011

To  
Chief Secretaries of all State Governments,  
Administrators of all Union Territories, and  
Secretaries of all Ministries/Departments  
of the Govt. of India.

**Subject: Observance of Anti-Terrorism Day.**

Sir,

I am directed to say that every year **May 21** is observed as Anti-Terrorism Day. The objective behind observance of this day is to wean away the youth from terrorism and the cult of violence by highlighting the sufferings of common people and showing how it is prejudicial to the national interest. The ways in which this objective can be achieved have been enumerated in former Union Home Minister's D.O. letter No.19/3/92-Public dated 13<sup>th</sup> May, 1992, a copy of which is enclosed for guidance. An important feature of the observance of the Anti-Terrorism Day is the "pledge-taking" ceremony in all Government offices, public sector undertakings and other public institutions. A copy of the "pledge" (both in English & Hindi) is enclosed.

2. This year 21<sup>st</sup> May falls on Saturday, a closed holiday for Central Government offices. To avoid inconvenience to the employees who have to travel long, distance from suburbs/cities to come to office on Saturday, it has been decided that the 'pledge taking ceremony' in the offices of the Central government may be held on Friday, the 20<sup>th</sup> May, 2011. However, if 21<sup>st</sup> May, 2011 is not a closed holiday for the State/UT Governments, the pledge taking ceremony may be held on 21<sup>st</sup> May, 2011. The ceremony may preferably be held in the forenoon.

3. You are, accordingly, requested to organize appropriate programmes, including the pledge-taking ceremony, to observe the Anti-Terrorism Day in a befitting manner.

Yours faithfully,

Encl. : As above

*R.P. Nath*

(R.P. Nath)  
Joint Secretary to the Government of India  
Tele. No.2309 3178

29 APR 2011

Copy, with enclosures, forwarded for information and necessary action to:-

1. President's Secretariat
2. Vice-President's Secretariat
3. Prime Minister's Office
4. Registrar, Supreme Court of India
5. Registrar, Delhi High Court
6. Cabinet Secretariat
7. Rajya Sabha Secretariat
8. Lok Sabha Secretariat
9. Planning Commission
10. Election Commission of India
11. Union Public Service Commission
12. Office of Comptroller & Auditor General of India
13. Central Vigilance Commission
14. University Grants Commission
15. National Commission for SCs
16. National Commission for STs
17. National Commission for Backward Classes
18. National Commission for Minorities
19. Telecom Commission
20. National Commission for Women
21. National Human Rights Commission
22. Manager, Reserve Bank of India
23. All attached & subordinate offices of the Ministry of Home Affairs
24. Ad.III Section/MHA for making necessary arrangement in connection with holding of ceremony.
25. Principal Information Officer, Shastri Bhawan, New Delhi-110001 for appropriate media coverage of the event
26. ADG (M&C), MHA



(R.P. Nath)

Joint Secretary to the Government of India

Tele. No.2309 3178

MINISTER OF HOME  
INDIA  
NEW DELHI-110001

D.O. No: 19/3/92-Public

Dated: 13<sup>th</sup> May, 1992

It has been decided to observe 21<sup>st</sup> May, 1992 as Anti- Terrorism Day.

2. As you are aware, terrorism and violence are now no longer confined to any particular region of the country; it has affected a number of States in different degrees, posing a threat to national security instilling in the minds of the people a sense of fear and uncertainty. It has to be countered by all possible means and at all levels. It seems necessary to generate an awareness in the country amongst all sections of people, about the danger of terrorism, violence and its dangerous effect on the people, the society and the country as a whole. We have to translate this feeling of danger into some form of action by which the required message is put across to all the people in a befitting manner.

3. The objective behind the observance of Anti-Terrorism Day is to wean away the youth from the terrorist/violence cult by highlighting the suffering of the common people and showing how it is prejudicial to the national interest. These objectives can be achieved in more ways than one. Namely,

- (i) by organizing debates/discussions in schools, colleges and universities;
- (ii) holding of symposiums/seminars, lectures, etc. on the dangers of terrorism & violence;
- (iii) a determined and sustained drive to bring about a mass awakening against terrorism and violence by making appropriate projection through the media i.e. newspapers, journals, magazines, All India Radio and Doordarshan etc. including postering and pamphleteering;
- (iv) for the mass education programme, to highlight the ill-effects of violence and terrorism, imaginative use of the electronic/print media by involving prominent sports, film and other prominent personalities and distribution of T-Shirts with attractive anti-violence/terrorist slogans;
- (v) involving voluntary organizations, social and cultural bodies to have their own programmes through lectures, talks, discussions, musical and recitation programmes and cultural functions;
- (vi) anti-terrorism/violence pledge to be taken in all Government offices, public sector undertakings and other public institutions. A copy of pledge is enclosed.

4. The above are some illustrative items of the proposed programme; you may kindly add or modify to suit special requirement, if any, prevailing in your State. I request you to kindly look into the matter personally and provide guidance to all concerned in your State including necessary publicity, to organise various programmes all over the State in observing 21<sup>st</sup> May as 'Anti-Terrorism Day' in a most befitting manner.

5. I shall be happy to have your response in the matter at an early date.

With regards,

Yours sincerely,

Sd/

(S.B. CHAVAN)

All Chief Ministers (by name)  
Except J&K and Nagaland  
Governor of J&K and Nagaland.

सं. 19/11/2011-पब्लिक  
भारत सरकार  
गृह मंत्रालय  
\*\*\*

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,  
दिनांक 28-4-2011

29 APR 2011

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/  
सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक तथा  
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों के सचिव ।

**विषय : आतंकवाद विरोधी दिवस मनाना ।**

महोदय,


मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हर वर्ष 21 मई को 'आतंकवाद विरोधी दिवस' के रूप में मनाया जाता है । इस दिन को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य आम आदमी के कष्टों को उजागर करके और यह बताकर कि आतंकवाद तथा हिंसा का मार्ग राष्ट्रीय हित के प्रति कितना हानिकारक है, युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के मार्ग से दूर रखना है । इन उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए जो तरीके अपनाए जाने चाहिए उनके बारे में पूर्व केन्द्रीय गृह मंत्री के दिनांक 13 मई, 1992 के अर्द्ध शासकीय पत्र सं. 19/3/92-पब्लिक में उल्लेख किया गया है, जिसकी एक प्रति मार्गदर्शन के लिए संलग्न है । आतंकवाद विरोधी दिवस को मनाने की एक खास विशेषता सभी सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य सार्वजनिक संस्थानों में "शपथ-ग्रहण" समारोह का आयोजन करना है। 'शपथ' की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में) संलग्न है ।

2. इस वर्ष 21 मई का दिन शनिवार का पड़ता है और इस दिन केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में छुट्टी रहती है। कर्मचारियों को उप नगरों / नगरों से काफी दूरी से चलकर शनिवार के दिन कार्यालय न आना पड़े इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार, 20 मई, 2011 को ही आयोजित कर लिया जाए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें भी इस निर्णय का पालन कर सकती हैं। यदि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के लिए 21 मई, 2011 का दिन छुट्टी का दिन नहीं है तो शपथ ग्रहण समारोह 21 मई 2011 को ही आयोजित किया जाए। इस समारोह को पूर्वाह्न में ही किए जाने की तरजीह दी जाए।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि आतंकवाद विरोधी दिवस को उचित ढंग से मनाने के लिए शपथ ग्रहण समारोह सहित उपयुक्त कार्यक्रम आयोजित करें ।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,



(आर.पी. नाथ)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार  
टेलीफैक्स: 2309 3178

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित :

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. राष्ट्रपति सचिवालय
3. उप-राष्ट्रपति सचिवालय
4. प्रधानमंत्री कार्यालय
5. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय
6. रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्चतम न्यायालय
7. मंत्रिमंडलीय सचिवालय
8. राज्य सभा सचिवालय
9. लोक सभा सचिवालय
10. योजना आयोग
11. निवार्चन आयोग
12. संघ लोक सेवा आयोग
13. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
14. केन्द्रीय सतर्कता आयोग
15. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
16. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
17. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
18. विधि आयोग
19. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
20. राष्ट्रीय महिला आयोग
21. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
22. प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक
23. गृह मंत्रालय के दिल्ली / नई दिल्ली स्थित सभी सम्बद्ध / अधीनस्थ कार्यालय
24. प्रशासन-III अनुभाग, गृह मंत्रालय
25. प्रधान सूचना अधिकारी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001।
26. ए.डी.जी. (एम. एंड सी), गृह मंत्रालय

अतिरिक्त प्रतियां - 10

र.पि.नाथ

(आर.पी. नाथ)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार  
टेलीफैक्स: 2309 3178

गृह मंत्री

भारत

नई दिल्ली, दिनांक 13 मई, 1992

21 मई, 1992 को आतंकवाद-विरोधी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है।

2. जैसा कि आप जानते हैं कि आतंकवाद और हिंसा अब देश के किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं रह गए हैं वरन् इन्होंने कई राज्यों को अलग-अलग तरह से कुप्रभावित किया है, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा किया है और लोगों के मन में भय और अनिश्चितता की भावना पैदा की है। इसका हर संभव तरीके से और सभी स्तरों पर मुकाबला किया जाना है। आतंकवाद और हिंसा के खतरे तथा जनता, समाज एवं पूरे देश पर इसके खतरनाक प्रभाव के बारे में समाज के सभी वर्गों में जागरूकता पैदा करना आवश्यक प्रतीत होता है। हमें खतरे की इस भावना को किसी ऐसी कार्रवाई के रूप में परिणित करना होगा जिसके द्वारा सभी लोगों में उचित ढंग से आवश्यक संदेश पहुंचाया जा सके।

3. आतंकवाद-विरोधी दिवस मनाने का उद्देश्य इसके कारण आम जनता को हो रहे कष्टों का उल्लेख करके तथा आतंक/हिंसा से राष्ट्रीय हितों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का उल्लेख करके युवकों को आतंक/हिंसा के दायरे से दूर रखना है। इस उद्देश्य को कई तरह से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे:-

- (i) विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में वाद-विवाद/चर्चयें आयोजित करके;
- (ii) आतंकवाद और हिंसा के खतरे के संबंध में परिचर्चा/सेमिनार, व्याख्यान आदि आयोजित करके;
- (iii) पोस्टर और पैम्फलेट लगाने सहित मीडिया अर्थात् समाचारपत्रों, पत्र-पत्रिकाओं, आकाशवाणी और दूरदर्शन आदि के माध्यम से उचित अभिव्यक्ति प्रस्तुत करके आतंकवाद और हिंसा के विरुद्ध जन-जागृति लाने के दृढ़ और निरंतर अभियान चला कर;
- (iv) हिंसा और आतंकवाद के कुप्रभावों को प्रकाश में लाने हेतु जन-शिक्षा कार्यक्रम के वास्ते खेलों, फिल्मों की प्रमुख हस्तियों और अन्य प्रसिद्ध हस्तियों को शामिल करके इलैक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया का कल्पनात्मक प्रयोग करना और ऐसी टी-शर्टों का संचितरण करना जिनमें हिंसा/आतंकवाद के विरोध में आकर्षक नारे लिखे हों।
- (v) स्वयं-सेवी संगठनों, सामाजिक और सांस्कृतिक निकायों को व्याख्यानों, चर्चाओं, परिचर्चाओं, संगीत और कविता पाठ कार्यक्रमों एवं सांस्कृतिक समारोहों के रूप में अपने स्वयं के कार्यक्रमों के लिए तैयार एवं शामिल करना।

(vi) सभी सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में आतंकवाद/हिंसा-विरोधी शपथ ली जाए। शपथ के पाठ की एक प्रति संलग्न है।

4. उपरोक्त मर्दे प्रस्तावित कार्यक्रम के कुछ उदाहरण मात्र हैं। आप अपने राज्य की स्थिति के अनुसार एवं अपनी विशेष जरूरतों, यदि कोई हों, के अनुरूप इन कार्यक्रमों में कुछ जोड़ सकते हैं या इनमें संशोधन कर सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस मामले में व्यक्तिगत रूप से रूचि लें और अपने पूरे राज्य में समुचित ढंग से 21 मई को 'आतंकवाद-विरोधी दिवस' के रूप में मनाने हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने के वास्ते आवश्यक प्रचार करने सहित अपने राज्य के सभी संबंधितों का मार्गदर्शन करें।

5. मुझे खुशी होगी यदि आप इस मामले में की गई कार्रवाई से मुझे शीघ्र सूचित करेंगे।

सादर,

आपका

ह0/-

( एस0 बी0 चव्हाण )

सभी राज्यों के मुख्य मंत्री ( नाम से )  
( जम्मू और कश्मीर तथा नागालैंड को छोड़कर ),  
जम्मू और कश्मीर तथा नागालैंड के राज्यपाल

## शपथ

हम भारतवासी अपने देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की परम्परा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शान्ति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की भी शपथ लेते हैं।

## PLEDGE

We, the people of India, having abiding faith in our country's tradition of non-violence and tolerance, hereby solemnly affirm to oppose with our strength, all forms of terrorism and violence. We pledge to uphold and promote peace, social harmony, and understanding among all fellow human beings and fight the forces of disruption threatening human lives and values.